

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -1

डेल टेक्नोलॉजीज और NTT लिमिटेड के साथ, निम्नलिखित में से किस भुगतान कंपनी ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है?

- A) भारतपे
- B) केशफ्री
- C) पेटीएम
- D) फोनपे

**सही उत्तर: D**

फिनटेक प्लेटफॉर्म फोनपे ने डेल टेक्नोलॉजीज और NTT से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठाते हुए भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है।

### प्रश्न -2

इसरो के किस मिशन में डॉ शंकरसुब्रमण्यम के. को प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया था?

- A) आदित्य-L1
- B) चंद्रयान-3
- C) गगनयान
- D) शुक्रायन-1

**सही उत्तर: A**

इसरो के डॉ. शंकरसुब्रमण्यम के. को आदित्य-L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य में, प्रधानमंत्री मोदी ने 'मिशन LiFE' की शुरुआत की है?

- A) गुजरात
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: A**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात में मिशन LiFE का शुभारंभ किया है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से कौन फीफा महिला विश्व कप 2023 का आधिकारिक शुभंकर है?

- A) एट्टी
- B) लिंग लिंग
- C) नटमेग
- D) तजुनी

**सही उत्तर: D**

फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में एक मजेदार, फुटबॉल प्रेमी पेंगुइन 'तजुनी' का अनावरण किया गया था।

### प्रश्न -5

महिला IPL निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित होने वाला है?

- A) 2026
- B) 2024
- C) 2023
- D) 2022

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: C

बहुप्रतीक्षित महिला IPL मार्च 2023 से एक महीने की विंडो में शुरू होगा और पांच टीमों के साथ।

### प्रश्न -6

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था?

- A) UAE और नीदरलैंड
- B) स्वीडन और जर्मनी
- C) इटली और नॉर्वे
- D) भारत और फ्रांस

सही उत्तर: D

भारत और फ्रांस को निकाय की पांचवीं आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया।

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाना है?

- A) गोवा
- B) गुजरात
- C) महाराष्ट्र
- D) तमिलनाडु

सही उत्तर: B

गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -8

अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला ग्रीको-रोमन पदक जीता?

- A) अमन सेहरावत
- B) अंतिम पंघाल
- C) सागर जगलान
- D) साजन भानवाला

**सही उत्तर: D**

साजन भानवाला ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में ग्रीको रोमन 77 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता।

### प्रश्न -9

निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लॉन्च किया गया था?

- A) भविष्य
- B) जीवन
- C) कल्याण
- D) संकल्प

**सही उत्तर: A**

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए "ईज ऑफ लिविंग" को बढ़ाने के इरादे से सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के सहयोग से 'भविष्य 9.0' पोर्टल विकसित किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 27 अक्टूबर 2022

### प्रश्न -10

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया?

- A) 16 अक्टूबर
- B) 17 अक्टूबर
- C) 19 अक्टूबर
- D) 20 अक्टूबर

**सही उत्तर: D**

बीमारी की रोकथाम, संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है।